

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

Mail ID:-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 2287. (अनु०)/

दिनांक 16/11/2024 /

प्रेषक,

ई० अवधेश कुमार,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्र०, दरभंगा-2

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
(3054-एम०आर०)
विश्वेश्वरैया भवन, पटना।

विषय:- शीर्ष-3054 (नई अनुरक्षण नीति-2018) अन्तर्गत पूर्ण किये गये पथों में आवंटन मॉग हेतु अधियाचना पत्र समर्पित करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में गैर योजना मद शीर्ष-3054 (नई अनुरक्षण नीति-2018) अन्तर्गत पूर्ण किये गये पथ में आवंटन मॉग हेतु राशि की अधियाचना विहित प्रपत्र तैयार कर समर्पित की जा रही है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि रु० 23.12124 लाख (कुल तैईस लाख बारह हजार एक सौ चौबीस) मात्र रुपये का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि संवेदक को भुगतान किया जा सके।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

 16/11/24

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०, दरभंगा-2
15/11/24

Name of Works Division:- RWD Works Division Darbhanga-2

[illegible]

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed.
2. Up to date Physical Progress has been uploaded in MIS

Executive Engineer
RWD Works Division Darbhang-2

15/11/24

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

प्रमाण-पत्र

विभागीय आदेशानुसार सत्यापित किया जाता है कि शीर्ष 3054 (नई
अनुरक्षण नीति-2018) अन्तर्गत Samaila To Naya Village तक पथ मरम्मत कार्य
की जॉच 100 प्रतिशत संबंधित कनीय अभियंता, 50 प्रतिशत संबंधित सहायक
अभियंता एवं 10 प्रतिशत कार्यपालक अभियंता द्वारा कर लिया गया है।

Ravi
14-11-24
कनीय अभियंता,

पंकज
14/11/24
सहायक अभियंता

16/11/24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र0, दरभंगा-2

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule- 150)

Form of Utilisation Certificate up to the month of Nov-2024

Head 3054 Account for M.R (New Maintenance Policy-2018) Yojna. Year 2024-25


PIU Darbhanga-2

Sl. No	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. Lacs)	Particulars
1.	Maintenance Account for Head 3054 Account for MR R (New Maintenance Policy- 2018) Yojna	Additional CEO-cum- Secretary Patna. Letter No-118 We Date- 06.11.2024	Rs. 3354.79050	Certified that out of Rs 3354.79050 lacs received during the years 2024-25 in favour of Ex. Engineer RWD work division Darbhanga-2 a sum of Rs 3173.45460 lacs has been utilized for the purpose of Maintenance Account for Head 3054 M.R (New Maintenance Policy-2018) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 181.33590 lacs remaining unutilized at the end of the period under.
	Total		3354.79050	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants in aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Constructions materials have tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conduction by the Assistant Engineer/ Executive Engineer
- All other codal formalities have been observed.


15/11/24

D. A. O.

R.W.D. Works Division
Darbhanga-2


15/11/24

Executive engineer,

R.W.D. Works Division

Darbhanga-2


15/11/24

NAME OF THE ROAD - P.W.D. Samalia to Naya Ganw

NAME OF THE CONTRACTOR- SHUBHAM KUMAR CHOUDHARY										LENGTH-1.29 K.M		
Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD		Latitude	Longitude	Event
14/11/24	11:53:41	54	0.1	310	10.1	3100	3654 G			26.29155	85.96606	Normal
14/11/24	11:54:0	54	0.1	320	20.2	3200	3767 G			26.2924	85.96641	Normal
14/11/24	11:54:16	54	0.1	300	30.3	3000	3540 G			26.29328	85.96656	Normal
14/11/24	11:54:27	54	0.1	310	40.4	3100	3654 G			26.29415	85.96675	Normal
14/11/24	11:54:31	54	0.1	290	30.3	2900	3426 G			26.29505	85.96672	Normal
14/11/24	11:54:52	54	0.1	300	30.3	3000	3540 G			26.29595	85.96669	Normal
14/11/24	11:55:0	54	0.1	330	30.3	3100	3654 G			26.29686	85.96668	Normal
14/11/24	11:55:11	54	0.1	330	10.3	3100	4254 G			26.29788	85.96671	SpeedBreaker
14/11/24	11:55:27	54	0.1	300	20.3	3000	3540 G			26.29878	85.96678	Normal
14/11/24	11:55:38	54	0.1	310	30.3	3100	3654 G			26.29969	85.96679	Normal
14/11/24	11:55:47	54	0.1	270	20.2	2700	3199 G			26.3006	85.96693	Normal
14/11/24	11:56:2	54	0.1	260	20.2	2600	3086 G			26.30143	85.96732	Normal
14/11/24	11:56:11	54	0.1	280	20.2	2800	3313 G			26.30346	85.96834	Normal
AVERAGE IRI						3560.077						

$$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$$

$$X = 3000$$

$$Y = 3540$$

(R) RURAL ROAD
Good Average Poor
4001-5000 >5001

Ravi
14-11-24
SE

Pankaj
14-11-24
SE

14-11-24
16-11-24

Executive Engineer
R.W.D.(W) Division
Darbhanga-2

14-11-24
14-11-24

Name of Customer : SHUBHAM KUMAR CHOUDHARY
Name of Work Road : P.W.D. Samaila to Naya Garw
Lab Job number :
Date : 14-11-2024
Section No. : 54

Test Date : 14-11-2024
Road Name : P.W.D. Samaila to Naya Garw
Machine No. : 477
Road Type : (P) RURAL ROAD
Start S No. :
Side :
Start E No. :
Weather :
UV Range : 2086 To 5000 mm/km
Dist Range : 0 To 1.4 0.1 * 1000 m
Equation : $Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$

Print

Generate Report and Graph


Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\joni\Desktop\shub\RII.Xls, Section No. : 54, Eqn : $Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$

Name of Customer : SHUBHAM KUMAR CHOUDHARY, Name of Work Road : P.W.D. Samaila to Naya Garw, Lab

UV
mm/
km



2086

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.3

Distance * 1000 m

14-11-24
14/11/24

14/11/2024

Executive Engineer
R.W.D.(N) Division
Barhanga-2